



रामाज्ञा स्कूल, नौएडा  
कक्षा- आठ / विषय-हिंदी / २०१७-१८  
ओलम्पियाड- अभ्यासपत्र

- निम्नलिखित काव्यांशो को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर दीजिए।
- आज जीत की रात  
पहरूपे, सावधान रहना  
खुल देश के द्वार  
अचल दीपक समान रहना  
प्रथम चरण है नए स्वर्ग का  
है मंजिल का छोर  
इस जन-मंथन से उठ आयी  
पहली रत्न हिलोर  
अभी शेष है पूरी होना  
जीवन मुक्ता डोर  
क्योंकि नहीं मिट पायी दुख की  
विगत साँवली कोर  
ले युग की पतवार  
बने अम्बुधि महान रहना  
पहरूपे, सावधान रहना।

1. 'आज जीत की रात' में किस जीत की ओर संकेत किया गया है?  
(क) भारत-पाकिस्तान युद्ध में जीत  
(ख) भारत-चीन युद्ध में जीत  
(ग) स्वतंत्रता प्राप्ति का जीत  
(घ) इनमें से कोई नहीं।
2. कवि ने किन्हें सावधान रहने को कहा है?  
(क) देश के किसानों को  
(ख) देश एवं सीमा के रक्षकों को  
(ग) देश के नवजवानों को  
(घ) देश के वासिंदों को।
3. 'विगत साँवली कोर' कहकर किस ओर संकेत किया गया है?  
(क) देश की समृद्धि की ओर  
(ख) प्राचीन उच्च स्तरीय शिक्षा की ओर  
(ग) लोगों के परिश्रमी स्वभाव की ओर  
(घ) गरीबी, अशिक्षा और अन्य अभावों की ओर।
4. काव्यांश का उद्देश्य क्या है?  
(क) शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना  
(ख) गरीबी का निराकरण करना  
(ग) नवयुवकों को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रेरित करना

(घ) स्वतंत्रता का उत्सव मनाना ।

5. 'मुक्ता' शब्द का पर्याय है .....

(क) सीप

(ख) कली

(ग) कछुआ

(घ) मोती ।

6. निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिये -

वॉटरलू के प्रसिद्ध युद्ध में नेपोलियन को हराने वाले इयूक ऑफ वेल्सिंग्टन, आर्थर वेल्जली को अंग्रेज आज भी एक महान योद्धा के रूप में स्मरण करते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि टीपू सुलतान के सामने वॉटरलू का यही वीर मैदान छोड़कर भाग गया था। यह भारतीय राकेटों का करिश्मा था।

घटना चौथे मैसूर युद्ध के दौरान अप्रैल 1799 की है। जनरल हैरिस के नेतृत्व में अंग्रेज फौज ने मैसूर राज्य पर हमला बोल दिया था। अंग्रेज फौज राजधानी श्रीरंगपट्टम के काफी नजदीक पहुँच गयी थी। लेकिन किले तक पहुँचना आसान काम नहीं था। किले के दक्षिण में सुलतानपेट गाँव के पास एक ऊँचा टीला था। टीपू ने अपने राकेटधारी सैनिकों की एक टुकड़ी उस टीले पर तैनात कर दी थी।

(i) वॉटरलू के युद्ध में इनमें से किसकी हार हुई थी?

(क) अंग्रेज कौम की

(ख) आर्थर वेल्जली की

(ग) नेपोलियन की

(घ) टीपू सुलतान की।

(ii) आर्थर वेल्जली की पराजय का कारण इनमें से क्या था?

(क) भारतीयों का रण कौशल

(ख) भारतीयों की कूटनीति

(ग) भारतीयों द्वारा प्रयुक्त धनुष-बाण

(घ) भारतीय राकेट।

(iii) इनमें से किसने मैसूर राज्य पर हमला किया था?

(क) नेपोलियन ने

(ख) टीपू सुलतान ने

(ग) जनरल हैरिस ने

(घ) आर्थर वेल्जली ने।

(iv) सुलतानपेट गाँव के पास टीले पर कौन-सी सेना तैनात थी?

(क) पैदल सेना

(ख) अश्वारोही सेना

(ग) राकेट धारी सैनिकों की सेना

(घ) तोपधारी सैनिकों की सेना।

(v) नेतृत्व शब्द का अर्थ है .....

(क) अगुआई

(ख) नेता

(ग) प्रभाव

(घ) अधिकार।

7. निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है?

(क) नेपाली

(ख) संस्कृत

(ग) पंजाबी

(घ) कश्मीरी

8. 'प्रति + उत्तर' शब्द के योग से बने 'प्रत्युत्तर' शब्द में संधि - भेद है :

(क) यण संधि

(ख) अयादि संधि

(ग) वृद्धि संधि

(घ) गुण संधि

9. खंड करने पर अर्थहीन हो जाने वाले शब्द कहलाते हैं :

(क) यौगिक शब्द

(ख) रूढ़ शब्द

(ग) योगरूढ़ शब्द

(घ) तत्सम शब्द

10. 'चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में'। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है :

(क) उपमा

(ख) श्लेष

(ग) अनुप्रास

(घ) यमक

11. निम्नलिखित में कृत प्रत्यय से बना शब्द है :

(क) भलाई

(ख) विषैला

(ग) प्रशंसनीय

(घ) ममेरा

12. कुछ लोग बगीचे में टहल रहे हैं :

(क) गुणवाचक विशेषण

(ख) रीतिवाचक विशेषण

(ग) संख्यावाचक विशेषण

(घ) परिमाणवाचक विशेषण

13. 'कानोकान' समस्तपद उदाहरण है :

(क) द्वंद्व समास का

(ख) तत्पुरुष समास का

(ग) कर्मधारय समास का

(घ) अव्ययीभाव समास का

14. स्वाती तुम कहाँ जा रही हो ?

(क) प्रश्नवाचक वाक्य

(ख) संकेतवाचक वाक्य

(ग) संदेहवाचक

(घ) इच्छावाचक

15. बालक खेल रहा है वाक्य में उद्देश्य है :

(क) खेल

(ख) रहा है

(ग) बालक

(घ) खेल रहा है

16. 'फल कैसे बिक गए ? वाक्य में क्रियाविशेषण है:

(क) रीतिवाचकविशेषण

(ख) परिमाणवाचकविशेषण

(ग) कालवाचकविशेषण

(घ) स्थानवाचकविशेषण

17. 'यह मेरी पतंग है'। वाक्य में सर्वनाम है ।

(क) निश्चयवाचक सर्वनाम

(ख) सम्बन्धवाचक सर्वनाम

(ग) प्रश्नवाचक सर्वनाम

(घ) अनिश्चयवाचक सर्वनाम

18. हिंदी भाषा के महीनों के नाम नहीं है :

(क) जनवरी

(ख) चैत्र

(ग) ज्येष्ठ

(घ) माघ

19. 'कुबेर' का पर्यायवाची शब्द नहीं है :

(क) धनपति

(ख) यक्षराज

(ग) किन्नराधिपति

(घ) कबीर

20. व्यंजन के ..... भेद होते हैं :

(क) तीन

(ग) चार

(ख) दो

(घ) छः